

म. 784
27/2

R-11768
23/12/04

भारत सरकार मुद्रणालय.....
के दिनांक.....को प्राप्त ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



प्रभारी
राजपत्र वितरण एका

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O.-500
KM-30
Dep'tt-250
CPB-220

सं. 551]
No. 551]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2004/अग्रहायण 24, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2004/AGRAHAYANA 24, 1926

23/12/04
पूरा किया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

प्रभारी

अधिसूचना

NOTIFICATION

रा. वि० एकक

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2004

New Delhi, the 13th December, 2004

सा.का.नि. 810(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि रोफिकोक्सिब युक्त ओषधि विनिर्मिति के उपयोग से मानव जीवन के लिए कतिपय जोखिम अंतर्ग्रस्त होने की संभावना है।

G.S.R. 810(E).—Whereas the Central Government is satisfied that use of drug formulations containing Rofecoxib are likely to involve certain risk to human beings.

और ओषधि का सुरक्षित अनुकल्प उपलब्ध है;

And whereas safer alternative to the drug are available;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में इस ओषधि के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक और समीचीन है।

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of this drug in public interest.

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित ओषधि के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषिद्ध करती है, अर्थात् :—

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 26-A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drug, with immediate effect, namely :—

“मानव उपयोग के लिए रोफिकोक्सिब और उसकी विनिर्मितियाँ”।

“Rofecoxib and its formulations for human use”.

[फा. सं. एक्स-11014/7/2004-डीएमएस एंड पीएफए]

[F. No. X-11014/7/2004-DMS & PFA]

रीता टिओटिया, संयुक्त सचिव

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.